



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1968/भाद्र 11, 1890

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1968/BHADRA 11, 1890

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रमण संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September 1968

S.O. 3126.—The following Order made by the President on August 31, 1968, is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendment in the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

In the said Rules, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation", under the sub-heading "B. Department of Rehabilitation", after entry 24, the following entry shall be inserted, namely:—

"24A. Relief and Rehabilitation of the Tibetan Refugees."

ZAKIR HUSAIN,
President.
31-8-1968.

[No. 74/7/CF-68.]

RAJESHWAR PRASAD, Jt. Secy.

(971)

